



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1982/पौष 12, 1903  
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1982/PAUSA 12, 1903

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

साप्ताहिक सूचना सं० : 2-ई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1982

विषय : चांदी के सिक्कों का निर्यात

मि० सं० 21/3/80-ई० 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन  
आदेश सं० ई० (सी०) प्रो०, 1977/ए० एम० (231), दिनांक 2 जनवरी, 1982 को धोर ध्यान  
दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि तत्काल से ही चांदी की माला को ध्यान में रखे बिना  
चांदी के सिक्कों के निर्यात को निषेध किया जाए। लेकिन, समय-समय पर जारी किए गए स्मृति  
पूफ सेट सिक्कों (अप्रचलन क्वालिटी) के निर्यात की स्वीकृति केवल भारत के टुकमाल, बंबई द्वारा

दी जाएगी और सीमा-शुल्क प्राधिकारी ऐसे निर्यातों के लिए सीधे ही अनुमति प्रदान करेंगे। तबनुसार, 1981-82 की निर्यात नीति के पृष्ठ सं० 25 पर क्रम सं० 78 के सामने दर्शाई गई प्रविष्टि "बांदी के सिक्के" को हटा दिया जाएगा।

3. उपर्युक्त निषेध के परिणाम स्वरूप 1981-82 के लिए आयात-निर्यात क्रिया-विधि हेड-बुक की नं० 223 क के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक  
आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**EXPORT TRADE CONTROL**  
**Public Notice No. 2-ETC (PN)/82**  
New Delhi, the 2nd January, 1982

Sub : Export of Silver Coins

**F. No. 21/3/80-EL.**—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(231) dated the 2nd January, 1982, on the above subject.

2. It has been decided to ban the export of Silver Coins irrespective of the Silver Content with immediate effect. However, Commemorative proof set coins (uncirculated quality) issued from time to time will be permitted to be exported only by India Government Mint, Bombay and the Customs authorities will directly allow such exports. Accordingly, the entry 'Silver Coins' appearing at S. No. 78, at page 25 of the Export Policy 1981-82 shall stand deleted.

3. The provisions of Para 223A of Hand Book of Import-Export Procedures 1981-82 shall not be applicable consequent to the aforesaid ban.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of  
Imports and Exports.